

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II --खण्ड 3--उपखण्ड (i)

PART II--Section 3--Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 264]

नई दिल्ली, शूक्रवार, अक्टूबर 13, 1972/अश्विन 21, 1894

No. 264]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1972/ASVINA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

### NOTIFICATION

#### INLAND TRAVEL TAX

New Delhi, the 13th October 1972

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Inland Air Travel Tax Act, 1971 (48 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Inland Air Travel Tax Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Inland Air Travel Tax (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Inland Air Travel Tax Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Assistant Collector of Customs may permit the carrier referred to in sub-rule (1) to make payments every month towards collection of tax

of such amount as such carrier considers necessary on such conditions as the Assistant Collector of Customs may specify and the amount so paid shall be adjusted after ascertaining the exact amount of tax payable by such carrier for that month."

3. In rule 5 of the said rules, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that the carrier shall furnish to the Assistant Collector of Customs within 120 days of the end of each financial year a detailed statement of refund claims entertained during that year and the statement shall be accompanied by such certificates from such Auditors, Chartered Accountants or other person as the Assistant Collector of Customs may require, certifying the correctness of the transactions indicated therein relating to refund."

4. In rule 6 of the said rules, in sub-rule (3), for the words "before the expiry of the calendar month", the words and figures "within 120 days" shall be substituted.

5. In rule 7 of the said Rules, in sub-rule (3) for the figures and word "90 days", the figures and words "130 days" shall be substituted.

[No. 4/IATT/72(F. No. 308/72-FTT.)]

R. K. THAWANI, Under Secy.

### वित्त मंत्रालय

### (राजस्व और बीमा विभाग)

### अधिसूचना

### अन्तर्देशीय यात्रा कर

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 1972

सा० का० नि० 442(अ) :—अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 (1971 का 48) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) नियमों का नाम अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर (संशोधन) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 4 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सहायक सीमा-शुल्क-कलक्टर, उपनियम (1) में निर्दिष्ट वाहक को कर के संग्रहण हेतु प्रतिमास ऐसी रकम का, जो ऐसा वाहक आवश्यक समझे, ऐसी शर्तों पर, जो सहायक सीमाशुल्क-कलक्टर विनिर्दिष्ट करे, संवाय करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और इस प्रकार संशुद्ध रकम उस मास के लिए ऐसे वाहक द्वारा संदेय कर की निश्चित रकम को अभिनिश्चित करने के पश्चात् समायोजित की जाएगी।"

3. उक्त नियम के नियम 5 में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि वाहक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 120 दिनों के भीतर साहायक सीमाशुल्क कलक्टर को उक्त वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय-दावों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेगा और विवरण के साथ ऐसे संपरीक्षकों, चार्टर्ड एकाउन्टेण्टों या अन्य व्यक्ति के, जिनकी सहायक सीमाशुल्क कलक्टर अपेक्षा करे, ऐसे प्रमाणपत्र होंगे जिनमें प्रतिदाय संबंधी उसमें उपदर्शित संबंधवहाराओं की शुद्धता प्रमाणित की गई हो।”

4. उक्त नियम के नियम 6 में, उपनियम (3) में, “कलेंडर मास के अवसान के पूर्व” शब्दों के स्थान पर “120 दिनों के भीतर” शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियम के नियम 7 में, उपनियम (3) में, “90 दिन” श्रंकों और शब्दों के स्थान पर “130 दिन” श्रंक और शब्द रखे जाएंगे।

[स० 4/आई० ए० टी० टी० (फा० स० २०८/1/72-एफ० टी० टी०)]

आर० के० थाबानी, अवर सचिव।

